

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.नि.स./2019/..... 813

दिनांक : 20/08/2019

कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2019

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ निजी सहायक [Junior Personal Assistant (English)] के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार ₹ 23,700/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं (परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-10 के अनुसार पे-स्केल रू. 33,800-1,06,700/- देय होगा)।

विशेष नोट:-

- (1) Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) एवं Online Fee जमा कराने हेतु जारी दिशा-निर्देशों (Guide-lines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध है।
 - (2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
2. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण (Number of vacant Posts and Reservation):-

Category-wise Backlog vacancies (प्रवर्गवार बैकलॉग रिक्तियाँ) :-

SC	ST	TOTAL
16 (04 posts reserved for women, out of which 01 post reserved for widow)	11 (03 posts reserved for women, out of which 01 post reserved for widow)	27

Category-wise Current vacancies (प्रवर्गवार वर्तमान रिक्तियाँ) :-

UR(GEN)	SC	ST	OBC	MBC	EWS	TOTAL
17 (04 posts reserved for women, out of which 01 post reserved for widow)	06 (01 post reserved for women)	05 (01 post reserved for women)	08 (02 posts reserved for women)	02	04 (01 post reserved for women)	42

Grand Total (कुल योग) :

UR(GEN)	SC	ST	OBC	MBC	EWS	TOTAL
17	22	16	08	02	04	69

Note: Out of total 69 posts, 01 (One) post reserved for persons with benchmark disabilities (Locomotor & Cerebral palsy) and 05 (five) posts reserved for Ex-servicemen.

नोट :-

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
2. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न-विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
3. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-
 - (अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित प्रवर्ग (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
 - (ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।
4. भूतपूर्व सैनिक (Ex-servicemen) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

Amul
20.8.19-

- (A) "An Ex-servicemen" means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and-
- who retired from such service after earning his/her pension ; or
 - who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension ; or
 - who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction of establishment ; or
 - who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity ;
- and includes personnel of the Territorial army of the following categories, namely : -
- pension holders for continuous embodies service ;
 - Persons with disability attributable to military service ; and
 - Gallantry award winners ;

or

- (v) Ex-recruits boarded out or released on medical grounds and granted medical/disability pension.

(B) भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

- भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न-विवाह महिला सहित), के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर नियमानुसार जारी जाति एवं आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति एवं आय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
- आरक्षण के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।

नोट :-राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification) :-**

- अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो कि सरकार द्वारा इस हेतु मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक या समकक्ष डिग्री धारित करना अनिवार्य है; तथा (Candidate must be a graduate of any university established by Law in India or its equivalent examination from any university recognized by the Government for the purpose); and
- अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। (Must have basic knowledge of Computer)

4. **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness):-**

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. **राष्ट्रीयता (Nationality) :-**

A candidate for appointment to the service must be:

- a citizen of India, or
- a citizen of Nepal, or
- a subject of Bhutan :

Provided that a candidate belonging to categories (b) & (c), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India.

6. **आयु (Age) :-**

20-8-19

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of **18 years** and must not have attained the age of **40 years**, on the first day of January next following (**01.01.2020**) the last date fixed for receipt of the application. PROVIDED that:

- (1) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in the case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or More Backward Classes or Women candidates;
- (2) there shall be no age limit in the case of Widow and Divorcee women candidate;
- (3) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years.
- (4) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (5) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner, who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (6) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (7) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

Note- (a) In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of the husband from the competent authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.
(b) It is explained that **the above relaxation in age will be admissible only in one category.**

7. **चरित्र (Character) :-**

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। उसे एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate), उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी एवं दो सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धी ना हों।

8. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee) :-**

आवेदक द्वारा अपने प्रवर्ग के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क देय होगा:-

- (क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer) एवं अन्य राज्य के आवेदक हेतु ₹ 650/-
- (ख) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer) के आवेदक हेतु ₹ 550/-
- (ग) दिव्यांग एवं राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु ₹ 400/-

9. **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee) :-**

परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया गया हो। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर पेश कर दिया जाये।

10. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for appointment) :-**

- (1) No male or female candidate, who has more than one wife/husband living, shall be eligible for appointment to the service.
- (2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment.
- (3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.

Note: - For the purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)

- (4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the commencement of these rules:

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase:

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

EXPLANATION: For the purpose of this sub rule, child born within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Note:- The aforesaid Rule of Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002 (as amended) has commenced w.e.f. 29.09.2005.

11. **चयन की रीति (Mode of Selection):-**

- (i) The competitive examination shall include Shorthand Dictation and Transcription of same on computer, as follows:-

Jr. Personal Assistant (English)	Duration	Speed of Dictation	Marks
English Shorthand	8 Minutes	90 words per minute	50 Marks

[Handwritten Signature]
20.8.19

Transcription and typing of Dictated passage in English on Computer.	60 Minutes	—	
--	------------	---	--

(ii) **Method of Conducting Stenography Test :-**

- (1) The test will be called Shorthand speed assessment test.
- (2) Before dictating the final Shorthand passage to the candidates a trial passage containing 200-250 words should be dictated at the same speed at which the final passage is intended to be dictated. The trial passage need not be transcribed and will not be taken into account while marking.
- (3) After a lapse of two three minutes, of the dictation of trial passage, the final passage should be dictated by the same person keeping in view the uniformity of speed which can be achieved by marking the passage after every 80-100 words as the case may be.
- (4) After the passage is dictated, five minutes time should be allowed to the candidates for reading the dictated passage.
- (5) The candidates should be required to transcribe the passage on Computer. The trial passage, the shorthand sheets and transcription sheets should be attached together. All the three sheets should bear the name, date and Roll No. of the candidate.

(iii) **Method of Evaluation of Transcribed sheets :-** (1) The mistakes shall be counted as full or partial mistakes, as the case may be:-

(a) The following should be counted as full mistakes:-

- (1) Omission of words or figure.
- (2) Substitution of wrong word or figure.
- (3) Misspelling.
- (4) Two partial mistakes will be equal to one full mistake.

(b) The following should be counted as partial mistakes:-

- (1) Error or Omission in punctuation.
- (2) Wrong use of capital or small letters.
- (3) Wrong indentation of paragraph.

(2) The margin of 5% mistakes may be allowed. If the mistakes/omissions are more than 5% of the dictated passage, the excess number of mistakes over 5% shall be deducted from the total number of words dictated and the speed will be calculated.

12. **ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure of filling-in online Application Form) :-** The instructions for filling-in online application form will be uploaded well in time. The candidates are advised to go through carefully with the instructions before filling-in online application form and also advised to visit regularly the official website of Rajasthan High Court.
13. **ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा (Time limit for filling-in Online Application Form) :-**
ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने की समय सीमा दिनांक 26.08.2019 (सोमवार) को प्रातः 11.30 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम तिथि दिनांक 16.09.2019 (सोमवार) को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी तथा ऑनलाइन फीस जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 17.09.2019 (मंगलवार) को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र ऑनलाईन आवेदन कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाएँ।
14. **परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, Month and Date of Examination) :-**
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।
13. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) :-**
राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
14. **प्रवेश-पत्र (Admission Card) :-**
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र वेबसाइट <http://www.hcrj.nic.in> पर Upload किये जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
15. **महत्वपूर्ण सूचनाएँ (Important Informations) :-**
 - (1) आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएँ सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 - (2) समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 - (3) एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

Am 1
20.8.19-


- (4) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (On being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- (5) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
- (6) परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट <http://www.hcrj.nic.in> पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।
- (7) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आ सकता है। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में ले जा सकता है।
- (8) जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहाँ मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (9) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यता: पालना करनी होगी।
इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- (10) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (11) **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of Use of Unfair Means)** :- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
- (12) **अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment by Irregular or Improper Means)** :- एक अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण (Impersonation) या कूटरचित या छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) या गलत या असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) या तात्विक सूचनाओं को छिपाने (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का उपयोग करने या करने का प्रयास करने (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination) का दोषी है या भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, दोषी घोषित किया गया है, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा—
- (a) भर्ती प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन हेतु भर्ती प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा
- (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से।
- (13) संयाचना:- नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

हैल्प लाईन नम्बर:-

आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु 0291-2541042 एवं 2541388.

हैल्प लाईन (Help Line) नम्बरों पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) सम्पर्क करें।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जावे। ई-मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थनापत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।


20.8.19
रजिस्ट्रार (परीक्षा)